



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 500 राँची, बुधवार,

26 जून, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 जून, 2019 ई०।

संख्या-05/NSA/01/02/2014- 3261 -- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **सिमडेगा** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्तया दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संख्या-65/1980) की धारा-3 की उपधारा- (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के **सिमडेगा** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त नियम की धारा-3 की उपधारा- (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।